



GOVT. OF NCT OF DELHI  
Delhi Subordinate Services Selection Board  
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.  
[www.dsssb.delhigovt.nic.in](http://www.dsssb.delhigovt.nic.in)

Participant Name	NITIN CHOUHAN
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER C - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	23/04/2026
Test Time	5:00 PM - 7:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : General intelligence and Reasoning Ability

**Q.1** Read the given statements and conclusions carefully. You have to take the given statements to be true even if they seem to be at variance from commonly known facts. You have to decide which conclusion/s logically follow/s from the given statements.

**Statements:** Some windows are drums. Some drums are seats.

**Conclusion (I):** Some windows are seats.

**Conclusion (II):** All seats are drums.

- Ans**
- 1. Both conclusions (I) and (II) follow
  - 2. Neither conclusion (I) nor (II) follows
  - 3. Only conclusion (II) follows
  - 4. Only conclusion (I) follows

**Q.2** Seven people, S, T, U, V, X, Y and Z, are sitting in a straight line, facing the north. Only three people sit between S and U. Y sits to the immediate left of U. No one sits to the right of V. Only two people sit between V and Y. T sits to the immediate right of Z.

How many people sit between X and T?

- Ans**
- 1. Four
  - 2. Three
  - 3. Two
  - 4. One

**Q.3** The position(s) of how many letters will remain unchanged, if each of the letters in the word NEGOTIATION is arranged in the English alphabetical order?<sup>2295</sup>

- Ans**
- 1. Four
  - 2. One
  - 3. Two
  - 4. Three

Q.4 Refer to the following series and answer the question that follows (all numbers are single digit numbers only). Counting to be done left to right only.

(Left) 8 5 9 1 4 2 5 3 5 8 6 4 7 6 4 9 7 3 2 3 6 4 2 3 2 1 9 (Right)

How many such even numbers are there, each of which is immediately preceded by an odd number and also immediately followed by an even number?

- Ans
- 1. Six
  - 2. Three
  - 3. Five
  - 4. Four

Q.5 Seven boxes, A, C, D, P, Q, R and T, are kept one over the other but not necessarily in the same order. R is kept second from the bottom. Only three boxes are kept between R and C. T is kept at one of the positions below R. Only D is kept between C and P. A is kept at one of the positions above C. How many boxes are kept between Q and T?2062

- Ans
- 1. Three
  - 2. Two
  - 3. Four
  - 4. One

Q.6 T is the mother of U. U is the sister of V. V is the wife of W. How is W related to T?

- Ans
- 1. Father
  - 2. Brother
  - 3. Daughter's son
  - 4. Daughter's husband

Q.7 Refer to the following series and answer the question that follows (all numbers are single digit numbers only). Counting to be done left to right.

(Left) 9 6 8 4 7 9 9 5 6 1 8 5 2 1 8 4 2 2 2 1 4 8 1 6 2 5 4 (Right)

How many such odd numbers are there, each of which is immediately preceded by an odd number and also immediately followed by an odd number?642

- Ans
- 1. 4
  - 2. 2
  - 3. 3
  - 4. 1

Q.8 A statement is given followed by two conclusions. Identify which of the given conclusions is/are true based on the given statement.

**Statement:**

$C < Z < R > O > K$

**Conclusions:**

I.  $K < R$

II.  $C < O$ 2129

- Ans
- 1. Only conclusion I is true.
  - 2. Both conclusions I and II are true.
  - 3. Only conclusion II is true.
  - 4. Neither conclusion I nor II is true.

Q.9 Seven boxes, E, F, G, J, K, M and Y, are kept one over the other but not necessarily in the same order. Only three boxes are kept above F. Only one box is kept between M and F. Only three boxes are kept between M and J. J is kept at some place above F. G is kept immediately below J. E is kept at one of the places above Y. K is not kept immediately above or below M. How many boxes are kept below Y?2059

- Ans  1. Zero  
 2. One  
 3. Three  
 4. Two

Q.10 Refer to the following letter series and answer the question.  
(Left) B K F A E H Q K S D S L M Y M R Y R G W L (Right)  
How many such vowels are there each of which is immediately preceded by a consonant and also immediately followed by a consonant?8985

- Ans  1. None  
 2. Three  
 3. One  
 4. Two

Q.11 A, E, I, O, U and V live on six different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it, number 2 and so on, till the topmost floor is numbered 6.  
U lives immediately above I. Only two people live between V and I. V lives on an odd numbered floor and below I. O lives immediately below E.  
How many people live between A and E?

- Ans  1. Four  
 2. Two  
 3. Three  
 4. One

Q.12 S,T,U,V,X,Y and Z are sitting around a circular table facing the centre of the table. Z sits to the immediate right of U. Only three people sit between Z and Y when counted from the left of Z. Only three people sit between U and T. S sits to the immediate right of V.  
How many people sit between U and V when counted from the right of V?2182

- Ans  1. Two  
 2. Four  
 3. One  
 4. Three

Q.13 Refer to the following letter and symbol series and answer the question that follows. Counting to be done from left to right only.

(Left) A & # W Z € % © H M O # \$ U £ F \* H D € © H (Right)

How many such symbols are there each of which is immediately preceded by a letter and also immediately followed by a letter?6438

- Ans  1. 3  
 2. 4  
 3. 1  
 4. 2

Q.14 Refer to the following series and answer the question (all numbers are single digit numbers only)

(Left) 9 9 3 9 2 4 4 1 9 1 6 9 4 9 9 6 3 2 6 1 7 9 8 3 9 8 7 (Right)

How many such odd numbers are there each of which is immediately preceded by an odd number and also immediately followed by an odd number?4682

- Ans
- 1. 6
  - 2. 5
  - 3. 3
  - 4. 4

Q.15 In a certain code language, 'YACK' is coded as '2416' and 'KANY' is coded as '1234'. What is the code for 'N' in the given code language?

- Ans
- 1. 1
  - 2. 4
  - 3. 3
  - 4. 2

Q.16 In a certain code language, 'FIRE' is coded as '6728' and 'WIFE' is coded as '7692'. What is the code for 'W' in the given code language?2146

- Ans
- 1. 9
  - 2. 7
  - 3. 6
  - 4. 2

Q.17 Seven boxes, E, F, G, J, K, M and Y, are kept one over the other but not necessarily in the same order. Only three boxes are kept below J. Only two boxes are kept between J and Y. Only E is kept above F. K is kept at some place below G and at some place above M. How many boxes are kept between M and F?2058

- Ans
- 1. One
  - 2. Two
  - 3. Four
  - 4. Three

Q.18 A is the father of B. C is the sister of B. C is the mother of D. D is the daughter of M's only sister. How is B related to M?804

- Ans
- 1. Brother
  - 2. Wife's brother
  - 3. Sister
  - 4. Husband's sister

Q.19 In a certain code language, 'NODE' is coded as '4712' and 'BOND' is coded as '7245'. What is the code for 'B' in the given code language?2380

- Ans
- 1. 2
  - 2. 7
  - 3. 5
  - 4. 4

Q.20 In this question, a statement is followed by two conclusions. Find out which conclusion(s) is/are true based on the given statement.

Statement:  $T < K < S > D > G$

Conclusions:

I.  $G < S$

II.  $T < D$

- Ans
- 1. Neither I nor II is true
  - 2. Only I is true
  - 3. Both I and II are true
  - 4. Only II is true

Section : General intelligence and Reasoning Ability1

Q.1 What should come in place of the '?' in the given series?  
36 40 32 44 28 ? 24

- Ans
- 1. 52
  - 2. 42
  - 3. 36
  - 4. 48

Q.2 If + means -, - means  $\times$ ,  $\times$  means  $\div$  and  $\div$  means +, then what will come in place of the question mark (?) in the following equation?

$$15 - 3 + 22 \div 45 \times 5 = ?128$$

- Ans
- 1. 32
  - 2. 36
  - 3. 40
  - 4. 30

Q.3 Based on the English alphabetical order, three of the following four letter-cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which is the letter-cluster pair that DOES NOT belong to that group?


(Note: The odd man out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter-cluster.)2089

- Ans
- 1. CF-IR
  - 2. OR-UD
  - 3. MP-SV
  - 4. IL-OX

Q.4 What should come in place of '?' in the given series?  
5, 20, ?, 80, 125, 1803707


- Ans
- 1. 35
  - 2. 40
  - 3. 50
  - 4. 45

Q.5 Identify the figure given in the options which when put in place of ? will logically complete the series.




Ans


✓ 1.




✗ 2.



✗ 3.



✗ 4.



Q.6 What will come in the place of '?' in the following equation, if '+' and '-' are interchanged and 'x' and '÷' are interchanged?

$$54 \times 6 - 7 \div 3 + 15 = ?$$

Ans ✗ 1. 13

✗ 2. 17

✓ 3. 15

✗ 4. 11

Q.7 Based on English Alphabetical order, three of the following four letter-clusters are alike in a certain way and thus form a group. Which is the letter-cluster that does not belong to that group?

(Note: The odd one out is not based on the number of consonants/vowels or their positions in the letter-cluster.)

Ans ✗ 1. MPL

✗ 2. FIE

✗ 3. KNJ

✓ 4. HKF

**Q.8** In the following number-pairs, the second number is obtained by applying certain mathematical operations to the first number. Which numbers should replace X and Y so that the pattern followed by the two numbers on the left side of :: is same as that on the right side of :: ?

(NOTE : Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into its constituent digits. E.g. 13 - Operations on 13 such as adding / subtracting /multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed)

X : 12 :: 36 : Y354

- Ans
- 1. X=18, Y=28
  - 2. X=15, Y=24
  - 3. X=15, Y=28
  - 4. X=18, Y=24

**Q.9** What will come in the place of the question mark (?) in the following equation, if '+' and '-' are interchanged and 'x' and '+' are interchanged?

$35 \times 7 - 18 \div 3 + 15 = ?$

- Ans
- 1. 46
  - 2. 44
  - 3. 48
  - 4. 42

**Q.10** WQVH is related to SMRD in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, GAFR is related to CWBN. To which of the given options is UOTF related, following the same logic?

- Ans
- 1. QKPB
  - 2. QKPO
  - 3. QKBP
  - 4. QERT

**Q.11** What should come in place of '?' in the given series?

23 28 18 33 13 38 ?

3054

- Ans
- 1. 10
  - 2. 54
  - 3. 8
  - 4. 68

**Q.12** In the following number-pairs, the second number is obtained by applying certain mathematical operations to the first number. Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets.

(NOTE : Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into its constituent digits. E.g. 13 - Operations on 13 such as adding / subtracting /multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed)

128, 96

72, 54339

- Ans
- 1. 48, 26
  - 2. 120, 92
  - 3. 100, 75
  - 4. 60, 42

Q.13 What will come in the place of the question mark (?) in the following equation, if '+' and '-' are interchanged and 'x' and '÷' are interchanged?

$$18 \div 3 + 21 - 42 \times 2 = ?$$


114

- Ans
- 1. 51
  - 2. 60
  - 3. 57
  - 4. 54

Q.14 WASD is related to YCUF in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, EIAL is related to GKCN. To which of the following options is KOGF related, following the same logic?2317

- Ans
- 1. MQWE
  - 2. MQTI
  - 3. MQIT
  - 4. MOIT

Q.15 Select the option figure in which the given figure (X) is embedded as its part.  
(Rotation is NOT allowed.)




(X)

Ans


1.




2.



3.



4.



Blackbook

Q.16 Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets.

(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding to/subtracting from/multiplying with 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

(27, 33, 39)

(44, 50, 56)

- Ans
- 1. (22, 28, 32)
  - 2. (55, 61, 67)
  - 3. (39, 55, 71)
  - 4. (31, 37, 53)

Q.17 Select the pair which follows the same pattern as that followed by the two pairs given below. Both pairs follow the same pattern.

JKQ : KHP

GEE : HBD1852

- Ans
- 1. JPP : KMO
  - 2. NQJ : ONK
  - 3. IVN : JTM
  - 4. USH : VPI

Q.18 What will come in place of '?' in the following equation, if '+' and '-' are interchanged and 'x' and '÷' are interchanged?

$$35 \times 1 - 21 + 32 \div 5 = ?$$

- Ans
- 1. -102
  - 2. -104
  - 3. -106
  - 4. -103

Q.19 Based on the English alphabetical order, three of the following four letter-cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which is the letter-cluster pair that does not belong to that group? (Note: The odd one out is not based on the number of consonants/vowels or their positions in the letter-cluster.)

- Ans
- 1. FJ - MD
  - 2. LP - SJ
  - 3. IM - PG
  - 4. OS - VN

Q.20 Read the given statements and conclusions carefully. You have to take the given statements to be true even if they seem to be at variance from commonly known facts. You have to decide which conclusion/s logically follow/s from the given statements.

Statements: All wallets are chairs. All wallets are belts.

Conclusion (I): Some chairs are belts.

Conclusion (II): All belts are wallets.

- Ans
- 1. Only conclusion (I) follows
  - 2. Neither conclusion (I) nor (II) follows
  - 3. Both conclusions (I) and (II) follow
  - 4. Only conclusion (II) follows

Section : General Awareness

Q.1 श्रम बाजार विश्लेषण में, श्रमिकों के कौशल और नियोक्ताओं द्वारा मांग किए गए कौशल के बीच बेमेल होने के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को क्या कहा जाता है?

- Ans
- 1. आकस्मिक बेरोजगारी
  - 2. संरचनात्मक बेरोजगारी
  - 3. मौसमी बेरोजगारी
  - 4. चक्रीय बेरोजगारी

Q.2 In January 2026, which of the following Indian boxers clinched titles at the National Boxing Championships held in Noida?

- Ans
- 1. Mary Kom and Sarita Devi
  - 2. Neeraj Goyat and Shiva Thapa
  - 3. Amit Panghal and Vikas Krishan
  - 4. Lovlina Borgohain and Nikhat Zareen

Q.3 Which of the following energy innovations reached a major milestone with the commissioning of the first port-based pilot project in September 2025?

- Ans
- 1. Thorium reactor core
  - 2. Tidal turbine cluster
  - 3. Floating solar array
  - 4. Green hydrogen plant

Q.4 Who won the Open section of the 2025 FIDE Grand Swiss tournament held in Samarkand?

- Ans
- 1. Alireza Firouzja
  - 2. Anish Giri
  - 3. Matthias Bluebaum
  - 4. Hans Niemann

Q.5 Which of the following leaders founded the Forward Bloc as a faction within the Indian National Congress in 1939?

- Ans
- 1. Subhas Chandra Bose
  - 2. Annie Besant
  - 3. Lala Lajpat Rai
  - 4. Jawaharlal Nehru

Q.6 What does the term "poverty line" refer to in the context of India?

- Ans
- 1. The amount of money a person spends on food
  - 2. The amount of government aid available to the poor
  - 3. The income level below which a person is considered poor
  - 4. A geographical boundary separating rich and poor areas

Q.7 Which historic decision was formally adopted at the Lahore Session of the Indian National Congress held in December 1929 under the presidency of Jawaharlal Nehru?

- Ans
- 1. Adoption of the Quit India resolution
  - 2. Launch of the Non-Cooperation Movement against British rule
  - 3. Acceptance of the Cripps Mission proposals
  - 4. Adoption of the resolution demanding Purna Swaraj (Complete Independence)

**Q.8 Which of the following leaders emphasized “service to humanity is service to God”?**

- Ans**
- 1. Dayananda Saraswati
  - 2. Raja Ram Mohan Roy
  - 3. Keshab Chandra Sen
  - 4. Swami Vivekananda

**Q.9 Which of the following correctly identifies the state/ UTs from which C.P. Radhakrishnan was serving as Governor before being elected as Vice President in September 2025?**

- Ans**
- 1. Telangana
  - 2. Maharashtra
  - 3. Jharkhand
  - 4. Puducherry

**Q.10 Which heritage site in Rajasthan, built by Rana Kumbha, is a hill fort known for its massive walls and scenic views?**

- Ans**
- 1. Amber Fort, with its palaces
  - 2. Kumbhalgarh Fort, with its long wall
  - 3. Chittorgarh Fort, with its history
  - 4. Jaisalmer Fort, with its sandstone

**Q.11 In national income accounting, what is the factor income earned by the owner of a natural resource for permitting its use in production?**

- Ans**
- 1. Rent
  - 2. Lease Income
  - 3. Economic Return
  - 4. Royalty

**Q.12 In April 2025, which Indian javelin thrower won gold with 83.86m at the National Federation Senior Athletic Championship in Kochi?**

- Ans**
- 1. Sachin Yadav
  - 2. Rohit Yadav
  - 3. Neeraj Chopra
  - 4. Shivpal Singh

**Q.13 Which of the following organisations developed the Indigenous Military Combat Parachute System (MCPS) that was successfully tested in October 2025 from a record altitude?**

- Ans**
- 1. Indian Space Research Organisation
  - 2. Bharat Electronics Limited
  - 3. Defence Research and Development Organisation
  - 4. Hindustan Aeronautics Limited

**Q.14 Why was the Divyang Sahara Yojana introduced in the Union Budget 2026–27 of India?**

- Ans**
- 1. To provide specialized support to Divyangjan
  - 2. To empower women
  - 3. To improve elderly care
  - 4. To boost rural youth employment

**Q.15** How did the British treat Muslims after the 1857 revolt, suspecting their significant role?

- Ans**
- 1. They confiscated their land and property on a large scale.
  - 2. They appointed them as administrators.
  - 3. They granted them special privileges.
  - 4. They exiled them to Burma.

**Q.16** NABARD is India's apex development bank, established in 1982. Which of the following is the full form of NABARD?

- Ans**
- 1. Nationwide Bank for Agriculture and Rural Development
  - 2. National Bank for Agriculture and Rural Development
  - 3. National Building for Agriculture and Rural Development
  - 4. National Bank Acts for Rural Development

**Q.17** The U-23 Tri-Nation International Football Championship 2026 was hosted in which state of India?

- Ans**
- 1. Manipur
  - 2. Meghalaya
  - 3. Assam
  - 4. Arunachal Pradesh

**Q.18** In which of the following years, was the Gandhi-Irwin Pact signed?

- Ans**
- 1. 1936
  - 2. 1927
  - 3. 1931
  - 4. 1928

**Q.19** राष्ट्रीय आय लेखांकन में, कौन-सा पद व्यक्तिगत आय के उस हिस्से को दर्शाता है, जो प्रत्यक्ष करों के भुगतान के बाद व्यक्तियों के पास शेष रहता है और उपभोग अथवा बचत के लिए उपलब्ध होता है?

- Ans**
- 1. राष्ट्रीय आय (National Income)
  - 2. कंपनी आय (Corporate Income)
  - 3. प्रयोज्य आय (Disposable Income)
  - 4. वैयक्तिक आय (Personal Income)

**Q.20** The Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) aims to:

- Ans**
- 1. provide electricity connections to villages
  - 2. construct expressways in metro cities
  - 3. provide all-weather road connectivity to eligible unconnected rural habitations
  - 4. develop irrigation projects

Section : General Awareness1

**Q.1** How do red blood cells contribute to maintaining homeostasis in the body?

- Ans**
- 1. They produce hormones
  - 2. They transport oxygen to tissues
  - 3. They digest food
  - 4. They produce antibodies

Q.2 Under the Constitution of India, which Article protects life and personal liberty, permitting restriction only through a legally established procedure?

- Ans
- 1. Article 19
  - 2. Article 32
  - 3. Article 14
  - 4. Article 21

Q.3 Which monument is an early example of Mughal architecture that reflects a synthesis of Indo-Islamic and Persian design elements, including the use of arches and a charbagh garden layout?

- Ans
- 1. Ajanta Caves
  - 2. Khajuraho Temple
  - 3. Golden Temple
  - 4. Humayun's Tomb

Q.4 The anti-defection law was introduced in the year \_\_\_\_\_ in the constitution of India.

- Ans
- 1. 1995
  - 2. 1985
  - 3. 1990
  - 4. 1980

Q.5 निम्नलिखित में से कौन-सा शहर, यशोभूमि नामक इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर (IICC) के लिए जाना जाता है?

- Ans
- 1. पुणे
  - 2. जयपुर
  - 3. नई दिल्ली
  - 4. चंडीगढ़

Q.6 What is the minimum reservation for women at all three levels of Panchayati Raj Institutions as per the 73rd Constitutional Amendment Act, 1992?

- Ans
- 1. One-fifth of the total number of seats
  - 2. One-fourth of the total number of seats
  - 3. One-third of the total number of seats
  - 4. One-half of the total number of seats

Q.7 Which of the following structures is found in homologous pairs inside the nucleus of a somatic diploid human cell?

- Ans
- 1. Ribosomes
  - 2. Centrioles
  - 3. Nucleolus
  - 4. Chromosomes

Q.8 Which constitutional amendment introduced Part IX to the Indian Constitution related to Panchayats?

- Ans
- 1. 44th Amendment
  - 2. 42nd Amendment
  - 3. 73rd Amendment
  - 4. 86th Amendment

**Q.9** What is the purpose of the Golden Quadrilateral project in India?

- Ans**
- 1. To develop a network of express highways
  - 2. To promote water transport
  - 3. To establish high-speed rail connectivity
  - 4. To enhance air connectivity

**Q.10** During cell division, duplicated chromosomes are separated into two nuclei. Which process divides the cytoplasm to complete the formation of two daughter cells?

- Ans**
- 1. Mitosis
  - 2. Binary fission
  - 3. Meiosis
  - 4. Cytokinesis

**Q.11** Part III of the Indian Constitution is related with \_\_\_\_\_.

- Ans**
- 1. Fundamental Rights
  - 2. Fundamental Duties
  - 3. Citizenship
  - 4. Directive Principles of State Policy

**Q.12** Which nutrient in the diet is necessary for the body to absorb vitamins A, D, E, and K?

- Ans**
- 1. Fat
  - 2. Minerals
  - 3. Carbohydrate
  - 4. Protein

**Q.13** Which festival celebrates the birth of Jesus Christ?

- Ans**
- 1. Christmas
  - 2. Good Friday
  - 3. Palm Sunday
  - 4. Easter

**Q.14** As per the Registrar General and Census Commissioner of India, which of the following religious communities recorded the lowest population growth rate in India during the decade 2001-2011?

- Ans**
- 1. Buddhist
  - 2. Jain
  - 3. Sikh
  - 4. Christian

**Q.15** Which part of the neuron transmits impulses away from the cell body?

- Ans**
- 1. Axon
  - 2. Nucleus
  - 3. Dendrite
  - 4. Cytoplasm

**Q.16** Which of the following languages belongs to the Dravidian family and is recognized as a Classical Language of India?

- Ans**
- 1. Odia
  - 2. Pali
  - 3. Sanskrit
  - 4. Tamil

Q.17 Which of the following Indian languages is officially recognized as a Classical language by the Government of India and belongs to the Dravidian language family?

- Ans
- 1. Hindi
  - 2. Urdu
  - 3. Tamil
  - 4. Kashmiri

Q.18 Which of the following regions of India is also known as the 'Molasses Basin'?

- Ans
- 1. Mizoram
  - 2. Tamil Nadu
  - 3. Nagaland
  - 4. Gujarat

Q.19 राजस्थान का कौन-सा मंदिर अपने श्वेत संगमरमर और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है तथा वास्तुकला की नागर शैली का अनुसरण करता है?

- Ans
- 1. रथ युक्त कोणार्क मंदिर
  - 2. गोपुरों वाला मीनाक्षी मंदिर
  - 3. समुद्र तटीय दृश्य वाला शोर मंदिर
  - 4. जैन डिजाइन वाला दिलवाड़ा मंदिर

Q.20 Which of the following rivers originates from the Amarkantak Plateau?

- Ans
- 1. Ganga
  - 2. Narmada
  - 3. Kaveri
  - 4. Godavari

Section : Arithmetical and Numerical Ability

Q.1 Simplify :  $12 + 8 \div 4 - 3 \times 2$

- Ans
- 1. 13
  - 2. 8
  - 3. 17
  - 4. 11

Q.2 मोहित ने ₹95,000 में एक घर खरीदा और उसने 1.5 वर्ष बाद 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से भुगतान करने का वादा किया, जहां ब्याज अर्ध-वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। 1.5 वर्ष बाद भुगतान किया गया ब्याज ज्ञात कीजिए।

- Ans
- 1. ₹18,987.23
  - 2. ₹17,516.32
  - 3. ₹18,146.52
  - 4. ₹17,123.23

Q.3 By selling an article for ₹120, a man incurs a loss of 20%. At what price (in ₹) should he sell the article to gain 12%?

- Ans
- 1. 158
  - 2. 188
  - 3. 178
  - 4. 168

Q.4 What percentage of the numbers from 1 to 90 have 1 or 4 in the unit's digit?


- Ans
- 1. 8%
  - 2. 21%
  - 3. 20%
  - 4. 0.09

Q.5 A number when decreased by  $87\frac{1}{2}\%$ , gives 795. The number is:

69

- Ans
- 1. 6400
  - 2. 6200
  - 3. 6360
  - 4. 6300

Q.6 The chart below shows the monthly revenue of two startups over six months of a year. Study the graph and answer the question below.



What is the percentage increase in revenue of BetaWare from February to June? (Correct to two decimal places.)

- Ans
- 1. 62.18
  - 2. 55.18
  - 3. 59.18
  - 4. 65.18

Q.7 Two plumbers, X and Y, are paid a total of ₹550 per day by their employer. If X is paid 120% of the sum paid to Y, then how much is Y paid (in ₹) per day?

- Ans
- 1. 150
  - 2. 250
  - 3. 300
  - 4. 200

Q.8 Ajay observes a 10% increase in sales in the first year and a 25% increase in the second year. If the current sales are ₹149600, what were the sales (in ₹) two years ago?

- Ans
- 1. 108800
  - 2. 119680
  - 3. 88800
  - 4. 136000

Q.9 The L.C.M of  $(2^3 \times 3, 2^5 \times 5^2)$  is

- Ans
- 1. 2500
  - 2. 3000
  - 3. 2400
  - 4. 2600

Q.10 Calculate the difference between compound interest, compounded annually, and simple interest on a principal of ₹1000 at a rate of 10% per annum for a period of 2 years.

- Ans
- 1. ₹15
  - 2. ₹11
  - 3. ₹12
  - 4. ₹10

Q.11 The LCM of the numbers 2.7 and 0.064 is:

- Ans
- 1. 432
  - 2. 0.432
  - 3. 4.32
  - 4. 43.2

Q.12 The average of 13 numbers is 20. If each number is multiplied by 4, then what will the new average be?

- Ans
- 1. 13
  - 2. 4
  - 3. 20
  - 4. 80


Q.13 The average of six consecutive prime numbers starting from 13 is equal to:

- Ans
- 1. 22
  - 2. 20
  - 3. 18
  - 4. 24

Q.14 The population of Bajhera village increases by 10% in the first year, it increases by 10% in the second year and due to mass exodus, it decreases by 20% in the third year. What will be its population after 3 years, if present population is 10,000?

- Ans
- 1. 9,680
  - 2. 9,880
  - 3. 9,460
  - 4. 8,890

- Q.15 Study the following bar graph and answer the question based on it.  
The Production of Urea by a Company (in 10,000 tonnes) over the Years



What was the percentage increase in the production of Urea from 2014 to 2020?

- Ans  1. 190%  
 2. 220%  
 3. 175%  
 4. 200%
- Q.16 In how many years will the sum of ₹450 become ₹585, if the rate of simple interest is 6% per annum.
- Ans  1. 3  
 2. 4  
 3. 5  
 4. 6
- Q.17 If 8 liters of a 30% alcohol solution is mixed with 12 liters of a 40% alcohol solution, what is the percentage of alcohol in the resulting mixture?
- Ans  1. 36%  
 2. 35%  
 3. 34%  
 4. 38%
- Q.18 A trader marks his goods 50% above the cost price and allows a discount of 10% on it. If his gain is  $x\%$ , find the value of  $x$ .
- Ans  1. 37  
 2. 34  
 3. 36  
 4. 35
- Q.19 The product of two co-prime numbers is 115. Their LCM is:
- Ans  1. 1  
 2. 115  
 3. 5  
 4. 23

Q.20 There are 24 members in group A, 78 members in group B, and 60 members in group C. All the members of these groups went to a restaurant. The average amount spent per member in groups A, B, and C is ₹334, ₹423, and ₹113 respectively. Find the overall average amount (in ₹) spent per member.

- Ans  1. 292  
 2. 295  
 3. 293  
 4. 291

Section : Arithmetical and Numerical Ability1

Q.1 A piece of work can be finished in 8 days, 10 days and 15 days by P, Q and R, respectively. They start the work; P works on all days, Q works on even days, and R works only for the first three days. The work is then finished in \_\_\_\_ days.

- Ans  1. 4.2  
 2. 5.5  
 3. 4.5  
 4. 4.8

Q.2 What is the total surface area of a cone of base radius 7 cm and height 22 cm? (Use  $\pi = \frac{22}{7}$  and round off your answer to one decimal place)

- Ans  1. 622.2 cm<sup>2</sup>  
 2. 652.2 cm<sup>2</sup>  
 3. 632.7 cm<sup>2</sup>  
 4. 661.9 cm<sup>2</sup>

Q.3 Find the mean proportional between 1200 and 2700.

- Ans  1. 900  
 2. 1280  
 3. 1200  
 4. 1800

Q.4 When moving against the current, the effective speed of a boat is half of its speed while moving with the current. If the stream flows at 4 km/h, find the speed of this boat in still water.

- Ans  1. 9 km/h  
 2. 7 km/h  
 3. 12 km/h  
 4. 6 km/h

Q.5 A sum of money is divided among P, Q, R and S in the ratio of 3 : 7 : 9 : 13. If the share of Q is ₹2436, then what will be the share of P?

- Ans  1. ₹1,044  
 2. ₹1,054  
 3. ₹1,064  
 4. ₹1,034

**Q.6** Determine the equivalent single discount that is equal to successive discounts of 15%, 20%, and 30%.

- Ans**
- 1. 48.6%
  - 2. 50.6%
  - 3. 52.4%
  - 4. 46.6%

**Q.7** The area of the base of a right circular cone is 154 sq.cm. If the height of the cone is twice the radius of the base, find its volume (in cu.cm, rounded off to two decimal places). (Use  $\pi = 22/7$ )

- Ans**
- 1. 730.33
  - 2. 718.67
  - 3. 720.32
  - 4. 750.25

**Q.8** A car travels from City A to City B at 60 km/h and returns to City A at 80 km/h. Immediately after returning, it again travels from City A to City B at 120 km/h. If the distance between A and B is 240 km, what is the average speed for the entire journey?

- Ans**
- 1. 85 km/h
  - 2. 80 km/h
  - 3. 70 km/h
  - 4. 90 km/h

**Q.9** A right circular cylinder has a base radius of 4 cm and a vertical height of 10 cm. Calculate the curved surface area of this cylinder. (Use  $\pi = 3.14$ )

- Ans**
- 1. 502.4 cm<sup>2</sup>
  - 2. 125.6 cm<sup>2</sup>
  - 3. 314 cm<sup>2</sup>
  - 4. 251.2 cm<sup>2</sup>

**Q.10** A can do a piece of work in 40 days. B is 25% more efficient than A. Find the number of days taken by B to do the same piece of work.

- Ans**
- 1. 36 days
  - 2. 32 days
  - 3. 24 days
  - 4. 16 days

**Q.11** A and B can do a piece of work in 16 and 24 days, respectively. They start the work together, and after some days, A leaves and B completes the rest of the work in 9 days. After how many days did A leave?

- Ans**
- 1. 6 days
  - 2. 8 days
  - 3. 7 days
  - 4. 4 days

**Q.12** A man sells a mobile phone for ₹600 and loses an amount. If he had sold it for ₹1,080, his gain would have been 4-times the former loss. The cost price (in ₹) of the mobile phone is:

- Ans**
- 1. 716
  - 2. 726
  - 3. 676
  - 4. 696

Q.13 The mean proportional between two numbers is 30. If one number is 11 less than the other, what is the larger number?

- Ans
- 1. 36
  - 2. 25
  - 3. 30
  - 4. 42

Q.14 Pipe A alone can fill a tank in 15 hours; what part of the tank will fill in 3 hours?

- Ans
- 1.  $\frac{1}{3}$
  - 2.  $\frac{1}{5}$
  - 3.  $\frac{1}{2}$
  - 4.  $\frac{2}{5}$

Q.15 A train 300 meters long is moving at a speed of 80 km/h. A man is running in the opposite direction at 10 km/h. How long will it take for the train to pass the man completely?

- Ans
- 1. 18 sec
  - 2. 15 sec
  - 3. 9 sec
  - 4. 12 sec

Q.16 A person travels for 2 hours at 50 km/h and for another 3 hours at 70 km/h. What is the average speed (in km/hour) for the entire journey?

- Ans
- 1. 64
  - 2. 60
  - 3. 62
  - 4. 65

Q.17 Divide 735 into three parts, such that the first part is double that of the second part and the second part is one-fourth of the third part. What is the third part?

- Ans
- 1. 420
  - 2. 475
  - 3. 538
  - 4. 435

Q.18 Calculate the percentage discount if an article is marked at ₹4,580 but sold for ₹2,977.

- Ans
- 1. 35%
  - 2. 44%
  - 3. 40%
  - 4. 31%

Q.19 A shopkeeper bought locks at the rate of 8 locks for ₹68 and sold them at the rate of 12 locks for ₹114. Find his gain percent (rounded off to two decimal places).

- Ans
- 1. 11.76%
  - 2. 17.78%
  - 3. 13.13%
  - 4. 15.56%

Q.20 Three equal cubes of side 10 cm are placed adjacently so as to form a cuboid. Find the total surface area (in  $\text{cm}^2$ ) of the resulting cuboid.

- Ans  1. 1400  
 2. 1800  
 3. 1200  
 4. 1600

Section : Test of English Language and Comprehension

Q.1 Complete the sentence with the correct article.

While traveling through the mountains, we saw \_\_\_ eagle soaring high above us.1964

- Ans  1. No article required  
 2. an  
 3. a  
 4. the

Q.2 In the following question, choose the appropriate option which completes the sentence.

The child was born \_\_\_\_\_ 1995.1809

- Ans  1. on  
 2. in  
 3. at  
 4. of

Q.3 Choose the appropriate option which completes the sentence.

I don't have \_\_\_\_\_ money left in my purse.1817

- Ans  1. few  
 2. some  
 3. any  
 4. many

Q.4 Choose the most appropriate option to complete the sentence.

The sun \_\_\_\_\_ in the west every evening.

- Ans  1. bows  
 2. rises  
 3. sets  
 4. shine

Q.5 Fill in the blank with a suitable article from the given alternatives.

Who was \_\_\_\_\_ last one to enter the room?2095

- Ans  1. the  
 2. a  
 3. an  
 4. No article

**Q.6 Choose the most appropriate option to complete the sentence:**

A candidate in an election must present a clear vision to the voters and outline \_\_\_\_\_ steps to achieve an improved economy and the betterment of the community.2060

- Ans
- 1. a
  - 2. an
  - 3. the
  - 4. no article

**Q.7 Select the most appropriate option to fill in the blank.**

He wanted to know about \_\_\_\_\_ games I like to play.2097

- Ans
- 1. a
  - 2. no article required
  - 3. an
  - 4. the

**Q.8 Fill in the blank with the most suitable option to complete the given sentence.**

People in Banaras are now disposing of waste more \_\_\_\_\_ than they used to after the new cleanliness rules were imposed.

- Ans
- 1. responsibly
  - 2. never
  - 3. upwards
  - 4. awkwardly

**Q.9 Choose from the options the most appropriate adjective for the wrong one in the sentence and correct it**

The government schemes are designed to attract naive business men to uplift the country 1718

- Ans
- 1. unscrupulous
  - 2. poor
  - 3. enterprising
  - 4. corrupt

**Q.10 In the following question, choose the appropriate option which completes the sentence.**

She sat \_\_\_\_\_ her sister during the concert.1802

- Ans
- 1. among
  - 2. besides
  - 3. beside
  - 4. between

Q.11 The given sentences, when properly sequenced, form a coherent paragraph. Each sentence is labelled with a letter. Choose the most logical order of the sentences from among the four given choices to construct a coherent paragraph, keeping 1 and 6 as the first and the last statements respectively.

1. Book fairs are popular events worldwide.

A) They attract publishers, authors, and readers from diverse backgrounds.

B) New books are often launched during these fairs, generating wide interest.

C) Workshops and seminars are frequently organized to encourage literary exchange.

D) Such fairs actively promote literacy and cultivate strong reading habits.

6. Hence, their impact on the literary world is substantial.

Ans  1. DACB

2. CBAD

3. BACD

4. ABCD

Q.12 In the given question, a statement divided into different segments is given. Rearrange all the segments to form a coherent statement.

impact weather around the world (O) / after over a year of record-high global (P) / is cooling off more quickly (Q) / sea temperatures, the Atlantic (R) / than ever recorded, which could (S)

6155

Ans  1. RQOSP

2. QOPSR

3. SRPQS

4. PRQSO

Q.13 Select the option that rectifies the highlighted part of the given sentence.

This novel is **interesting to other book** in the series.

Ans  1. most interesting than any other book

2. much interesting than any other book

3. more interesting than any other book

4. more interesting than other book

Q.14 Select the appropriate option to correct the sentence.

She **burbled** about her honeymoon destination, laughing and talking without pausing for breath.

Ans  1. She gushed excitedly about her honeymoon destination, laughing and talking without pausing for breath.

2. She declared excitedly about her honeymoon destination, laughing and talking without pausing for breath.

3. She whispered excitedly about her honeymoon destination, laughing and talking without pausing for breath.

4. She mumbled excitedly about her honeymoon destination, laughing and talking without pausing for breath.

Q.15 Select the option that will improve the underlined part of the given sentence. In case no improvement is needed, select 'No improvement required.'

The teacher suggested that he improves his handwriting before the final exams.

Ans  1. improved his handwriting

2. improve his handwriting

3. No improvement required

4. will improve his handwriting

**Comprehension:**

Read the passage and choose the correct answer to the questions based on it.

Dentistry is a branch of medicine focused on the evaluation, diagnosis, and treatment of the oral cavity and its maxillofacial structures. Far from being a mere cursory pursuit, oral health is an essential indicator of systemic well-being. The mouth acts as a gateway; periodontal diseases have been clinically linked to cardiovascular issues and diabetes, making the dentist a vital guardian of general health.

The field relies on a synthesis of surgical skill and material science. Procedures such as "endodontics" (root canal therapy) involve the meticulous removal of infected pulp to salvage the natural tooth structure, while orthodontics utilizes biomechanical forces to realign dental arches. Modern dentistry is currently undergoing a digital transformation, utilizing 3D imaging and biocompatible resins to enhance procedural accuracy. Despite these advancements, the primary challenge remains the "calcification" of dental plaque into tartar, necessitating a rigorous commitment to preventative care to avoid irreversible tissue degradation.

**SubQuestion No : 16**

**Q.16 Which title best captures the comprehensive scope of the passage?**

**Comprehension:**

Read the passage and choose the correct answer to the questions based on it.

Dentistry is a branch of medicine focused on the evaluation, diagnosis, and treatment of the oral cavity and its maxillofacial structures. Far from being a mere cursory pursuit, oral health is an essential indicator of systemic well-being. The mouth acts as a gateway; periodontal diseases have been clinically linked to cardiovascular issues and diabetes, making the dentist a vital guardian of general health.

The field relies on a synthesis of surgical skill and material science. Procedures such as "endodontics" (root canal therapy) involve the meticulous removal of infected pulp to salvage the natural tooth structure, while orthodontics utilizes biomechanical forces to realign dental arches. Modern dentistry is currently undergoing a digital transformation, utilizing 3D imaging and biocompatible resins to enhance procedural accuracy. Despite these advancements, the primary challenge remains the "calcification" of dental plaque into tartar, necessitating a rigorous commitment to preventative care to avoid irreversible tissue degradation.

**SubQuestion No : 17**

**Q.17 Choose the correct synonym of "vital".**

**Comprehension:**

Read the passage and choose the correct answer to the questions based on it.

Dentistry is a branch of medicine focused on the evaluation, diagnosis, and treatment of the oral cavity and its maxillofacial structures. Far from being a mere cursory pursuit, oral health is an essential indicator of systemic well-being. The mouth acts as a gateway; periodontal diseases have been clinically linked to cardiovascular issues and diabetes, making the dentist a vital guardian of general health.

The field relies on a synthesis of surgical skill and material science. Procedures such as "endodontics" (root canal therapy) involve the meticulous removal of infected pulp to salvage the natural tooth structure, while orthodontics utilizes biomechanical forces to realign dental arches. Modern dentistry is currently undergoing a digital transformation, utilizing 3D imaging and biocompatible resins to enhance procedural accuracy. Despite these advancements, the primary challenge remains the "calcification" of dental plaque into tartar, necessitating a rigorous commitment to preventative care to avoid irreversible tissue degradation.

**SubQuestion No : 18**

**Q.18 According to the passage, why is the dentist considered a "guardian of general health"?**

**Comprehension:**

Read the passage and choose the correct answer to the questions based on it.

Dentistry is a branch of medicine focused on the evaluation, diagnosis, and treatment of the oral cavity and its maxillofacial structures. Far from being a mere cursory pursuit, oral health is an essential indicator of systemic well-being. The mouth acts as a gateway; periodontal diseases have been clinically linked to cardiovascular issues and diabetes, making the dentist a vital guardian of general health.

The field relies on a synthesis of surgical skill and material science. Procedures such as "endodontics" (root canal therapy) involve the meticulous removal of infected pulp to salvage the natural tooth structure, while orthodontics utilizes biomechanical forces to realign dental arches. Modern dentistry is currently undergoing a digital transformation, utilizing 3D imaging and biocompatible resins to enhance procedural accuracy. Despite these advancements, the primary challenge remains the "calcification" of dental plaque into tartar, necessitating a rigorous commitment to preventative care to avoid irreversible tissue degradation.

**SubQuestion No : 19**

**Q.19 What can be inferred about the "digital transformation" mentioned in the second paragraph?**

### Comprehension:

Read the passage and choose the correct answer to the questions based on it.

Dentistry is a branch of medicine focused on the evaluation, diagnosis, and treatment of the oral cavity and its maxillofacial structures. Far from being a mere cursory pursuit, oral health is an essential indicator of systemic well-being. The mouth acts as a gateway; periodontal diseases have been clinically linked to cardiovascular issues and diabetes, making the dentist a vital guardian of general health.

The field relies on a synthesis of surgical skill and material science. Procedures such as "endodontics" (root canal therapy) involve the meticulous removal of infected pulp to salvage the natural tooth structure, while orthodontics utilizes biomechanical forces to realign dental arches. Modern dentistry is currently undergoing a digital transformation, utilizing 3D imaging and biocompatible resins to enhance procedural accuracy. Despite these advancements, the primary challenge remains the "calcification" of dental plaque into tartar, necessitating a rigorous commitment to preventative care to avoid irreversible tissue degradation.

#### SubQuestion No : 20

**Q.20 Which word from the passage serves as the most appropriate antonym for "Meticulous"?**

#### Section : Test of English Language and Comprehension1

**Q.1 What is the antonym of "obscure"?**

- Ans
- 1. Ambiguous
  - 2. Clear
  - 3. Cryptic
  - 4. Hidden

**Q.2 Select the most appropriate ANTONYM of the given word.**

**Admonish**

- Ans
- 1. Believe
  - 2. Attract
  - 3. Sanction
  - 4. Provoke

**Q.3 Rearrange the segments to form a coherent sentence.**

- (A) recognising its potential benefits
- (B) after several rounds of negotiation
- (C) they eventually conceded
- (D) although the committee had initially opposed the proposal

- Ans
- 1. DBCA
  - 2. BDAC
  - 3. CBDA
  - 4. ACBD

**Q.4 Out of the four alternatives, choose the one that can be used as a substitute for the bracketed word segment.**

**A/ An (person who renounces or abandons their religious faith, political allegiance, or cause) often faces criticism from the group they once belonged to.**

- Ans
- 1. apostate
  - 2. critic
  - 3. rebel
  - 4. outcast

**Q.5** Select the option that best explains the meaning of the given proverb.  
A tree is known by its fruit.

- Ans
- 1. The value of a tree is measured by its height and size.
  - 2. People respect a tree for the sweetness of its fruits.
  - 3. A person is judged by their actions or achievements.
  - 4. A tree is admired for the beauty of its leaves and flowers.

**Q.6** Which of the following words is spelt incorrectly?

- Ans
- 1. Accommodate
  - 2. Relevent
  - 3. Conscientious
  - 4. Embarrass

**Q.7** Select the option from the given alternatives that can be used as a one-word substitute for the highlighted phrase.

The old documents were kept safely in a/an place where historical records are stored.

- Ans
- 1. sanatorium
  - 2. kennel
  - 3. dormitory
  - 4. archive

**Q.8** Select the option that best explains the given proverb.  
There's no such thing as free lunch

- Ans
- 1. Lunch is the most important meal of the day
  - 2. You cannot get something for nothing
  - 3. Free meals are easy to find and have
  - 4. People should share their food with others

**Q.9** Select the synonym of 'Austere'.

- Ans
- 1. Abstruse
  - 2. Luxurious
  - 3. Severe
  - 4. Respectful

**Q.10** Choose the option that correctly describes the meaning of the proverb.  
"A bird in the hand is worth two in the bush."

- Ans
- 1. It's better to have something now than to risk it for more.
  - 2. It's better to take risks than to be cautious.
  - 3. It's better to have friends than to be alone.
  - 4. It's better to be in the wild than in captivity.

**Q.11** Select the most appropriate ANTONYM of the given word.

Hostile

- Ans
- 1. Active
  - 2. Friendly
  - 3. Polite
  - 4. Hopeful

**Q.12 From the given options, choose the one that has no misspelled words.**

- Ans** ✓ 1. The party's boisterousness intermittently disrupted the otherwise calm atmosphere of the neighborhood.  
✗ 2. The party's boisterousness intermittently disrupted the otherwise calm atmosphere of the neighborhood.  
✗ 3. The party's boisterousness intermittently disrupted the otherwise calm atmosphere of the neighborhood.  
✗ 4. The party's boisterousness intermittently disrupted the otherwise calm atmosphere of the neighborhood.

**Q.13 Choose the suitable proverb for the given expression.**

**If you start something badly the result will be unsatisfactory**

- Ans** ✗ 1. Good beginnings lead to bad results  
✓ 2. Bad beginnings lead to bad results  
✗ 3. Good beginnings lead to good results  
✗ 4. Bad beginnings lead to good results

**Q.14 Select the option from the given alternatives that can be used as a one-word substitute for the highlighted phrase.**

**After serving in the army for decades, he was respected as a/an experienced person.**

- Ans** ✓ 1. veteran  
✗ 2. introvert  
✗ 3. inaudible  
✗ 4. actor

**Q.15 Select the option that can be used as a one-word substitute for the underlined group of words.**

**We do not live in a/an government run by a few people.**

- Ans** ✓ 1. oligarchy  
✗ 2. monarchy  
✗ 3. anarchy  
✗ 4. democracy

### **Comprehension:**

Read the given passage carefully and answer the questions that follow.

Beneath the earth's surface lies a force that recognises no boundaries. It erupts as earthquakes that strike without warning, causing fear and widespread damage. Such disasters make no distinction between a modern city and a simple village. Roads split apart, buildings collapse, and daily life is thrown into confusion as people rush to find safety. Essential services, such as transport, electricity, and gas supplies, are disrupted, making rescue work difficult. Fires may break out, adding to the chaos. Bridges and dams can fail, and deep cracks appear in busy streets, cutting off communication.

The destruction is not confined to land alone. Some earthquakes occur in remote areas, where casualties may be limited, yet their force can still be immense. When one occurs at sea, massive waves sweep inland. In mountainous regions, it can trigger avalanches that thunder into valleys below. No place on earth lies beyond its reach.

### **SubQuestion No : 16**

**Q.16 The overall tone of the passage can best be described as:**

### **Comprehension:**

Read the given passage carefully and answer the questions that follow.

Beneath the earth's surface lies a force that recognises no boundaries. It erupts as earthquakes that strike without warning, causing fear and widespread damage. Such disasters make no distinction between a modern city and a simple village. Roads split apart, buildings collapse, and daily life is thrown into confusion as people rush to find safety. Essential services, such as transport, electricity, and gas supplies, are disrupted, making rescue work difficult. Fires may break out, adding to the chaos. Bridges and dams can fail, and deep cracks appear in busy streets, cutting off communication.

The destruction is not confined to land alone. Some earthquakes occur in remote areas, where casualties may be limited, yet their force can still be immense. When one occurs at sea, massive waves sweep inland. In mountainous regions, it can trigger avalanches that thunder into valleys below. No place on earth lies beyond its reach.

### **SubQuestion No : 17**

**Q.17 Which of the following best captures the central theme of the passage?**

**Comprehension:**

Read the given passage carefully and answer the questions that follow.

Beneath the earth's surface lies a force that recognises no boundaries. It erupts as earthquakes that strike without warning, causing fear and widespread damage. Such disasters make no distinction between a modern city and a simple village. Roads split apart, buildings collapse, and daily life is thrown into confusion as people rush to find safety. Essential services, such as transport, electricity, and gas supplies, are disrupted, making rescue work difficult. Fires may break out, adding to the chaos. Bridges and dams can fail, and deep cracks appear in busy streets, cutting off communication.

The destruction is not confined to land alone. Some earthquakes occur in remote areas, where casualties may be limited, yet their force can still be immense. When one occurs at sea, massive waves sweep inland. In mountainous regions, it can trigger avalanches that thunder into valleys below. No place on earth lies beyond its reach.

**SubQuestion No : 18**

**Q.18 Which title best suits the passage?**

**Comprehension:**

Read the given passage carefully and answer the questions that follow.

Beneath the earth's surface lies a force that recognises no boundaries. It erupts as earthquakes that strike without warning, causing fear and widespread damage. Such disasters make no distinction between a modern city and a simple village. Roads split apart, buildings collapse, and daily life is thrown into confusion as people rush to find safety. Essential services, such as transport, electricity, and gas supplies, are disrupted, making rescue work difficult. Fires may break out, adding to the chaos. Bridges and dams can fail, and deep cracks appear in busy streets, cutting off communication.

The destruction is not confined to land alone. Some earthquakes occur in remote areas, where casualties may be limited, yet their force can still be immense. When one occurs at sea, massive waves sweep inland. In mountainous regions, it can trigger avalanches that thunder into valleys below. No place on earth lies beyond its reach.

**SubQuestion No : 19**

**Q.19 What can be inferred about earthquakes occurring at sea?**

**Comprehension:**

Read the given passage carefully and answer the questions that follow.

Beneath the earth's surface lies a force that recognises no boundaries. It erupts as earthquakes that strike without warning, causing fear and widespread damage. Such disasters make no distinction between a modern city and a simple village. Roads split apart, buildings collapse, and daily life is thrown into confusion as people rush to find safety. Essential services, such as transport, electricity, and gas supplies, are disrupted, making rescue work difficult. Fires may break out, adding to the chaos. Bridges and dams can fail, and deep cracks appear in busy streets, cutting off communication.

The destruction is not confined to land alone. Some earthquakes occur in remote areas, where casualties may be limited, yet their force can still be immense. When one occurs at sea, massive waves sweep inland. In mountainous regions, it can trigger avalanches that thunder into valleys below. No place on earth lies beyond its reach.

**SubQuestion No : 20**

**Q.20 Which of the following is explicitly stated in the passage?**

**Section : Test of Hindi Language and Comprehension**

**Q.1 निम्नलिखित लोकोक्ति के उचित अर्थ का चयन करें-**

**'मलयागिरि की भीलनी चन्दन देत जलाय'**

- Ans**
- 1. मजबूरी में इंसान सब काम करता है
  - 2. जो वस्तु सहज ही उपलब्ध होती है, उसकी कद्र नहीं होती
  - 3. धन-दौलत का कोई भरोसा नहीं
  - 4. छोटी चीज़ को बड़े काम में लाना

**Q.2 निम्न वाक्य के रिक्त स्थान में उचित क्रिया शब्द लगाकर वाक्य पूर्ण करें , सही विकल्प का चयन करें -  
'मोहन ने राम को ।'**

- Ans**
- 1. जागा
  - 2. जागना
  - 3. जगाया
  - 4. जागता

Q.3 निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्णरूप से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए।

- Ans  1. मुझे संस्कृत नहीं आती।  
 2. मुझे संस्कृति नहीं आती।  
 3. मुझे संस्कृत नहीं आती।  
 4. संस्कृत नहीं मुझे आती।

Q.4 दिए गए वाक्यों के लिखने का सही क्रम चुनें-  
(1) सभी लोगों में उसको देखने की उत्सुकता थी।  
(2) आनन्द स्कूल का नया हेडमास्टर है।  
(3) स्कूल के अन्य मास्टर भी उसके स्वागत में खड़े थे।  
(4) उसने आते ही सबको नमस्कार किया।

- Ans  1. 1243  
 2. 2134  
 3. 1234  
 4. 1432

Q.5 नीचे दिए परिच्छेद में से अतिरिक्त वाक्य चुनें-  
गुप्तजी का राजतन्त्र प्रजातन्त्र का ही पर्याय है। उन्होंने राजा को जन-प्रतिनिधि माना है जो जनकल्याण के लिए अपने पद पर आसीन होता है। राष्ट्रीयता एक ही भौगोलिक सीमा और शासन-व्यवस्था में रहने वाले जनों की मनोगत भावना है।

- Ans  1. जो जनकल्याण के लिए अपने पद पर आसीन होता है।  
 2. उन्होंने राजा को जन-प्रतिनिधि माना है  
 3. गुप्तजी का राजतन्त्र प्रजातन्त्र का ही पर्याय है।  
 4. राष्ट्रीयता एक ही भौगोलिक सीमा और शासन-व्यवस्था में रहने वाले जनों की मनोगत भावना है।

Q.6 'लाख का घर राख होना' मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा?

- Ans  1. घर में किसी के न होने से अकेलापन अखरना  
 2. काम बिगड़ जाना  
 3. बुद्धि चकरा जाना  
 4. धनी का निर्धन हो जाना

Q.7 दिए गए वाक्य में अधिकरण कारक का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें -  
मध्यकाल ----- भक्ति आंदोलन का व्यापक प्रसार हुआ।

- Ans  1. को  
 2. के लिए  
 3. ने  
 4. में

Q.8 दिए गए वाक्यों में अतिरिक्त वाक्य का चुनाव करें -

- Ans  1. चरित्र एक निरंतर प्रवाहमान चेतना है।  
 2. चरित्र कोई स्थिर शिला नहीं है।  
 3. चरित्र संवेदनाओं, निर्णयों, स्व-अनुशासन और संगति से निर्मित होता है।  
 4. सुदृढ़ व्यक्तित्व कोई उपदेशक नहीं होता है।

Q.9 निम्नलिखित वाक्य खंड को क्रम में लिखें -  
रस सिद्धांत के अनुसार भावनाएँ  
हृदय में जागृत होकर आनंद प्रदान करती हैं  
स्थायी भावों से उत्पन्न होती हैं  
जो साहित्य के माध्यम से पाठक के

- Ans  1. 3214  
 2. 2314  
 3. 4213  
 4. 1342

Q.10 उपयुक्त 'क्रिया' का चयनकर दिए गए वाक्य की पूर्ति कीजिए।  
द्रोपदी कपड़े की .....कर रही है।

- Ans
- 1. पिटाई
  - 2. सिलाई
  - 3. गुड़ाई
  - 4. कुटाई

Q.11 'जो प्रिय बोलता है' वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा -

- Ans
- 1. वाचाल
  - 2. मितभाषी
  - 3. मिठवक्ता
  - 4. प्रियंवद

Q.12 संप्रदान कारक के प्रयोग से वाक्य को पूर्ण कीजिए।  
श्याम ने राधा ..... गहने खरीदे।

- Ans
- 1. से
  - 2. को
  - 3. के लिए
  - 4. की

Q.13 निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में उचित क्रिया की पूर्ति कीजिए -  
'गायक \_\_\_\_\_ है।'

- Ans
- 1. हँसता
  - 2. मारा
  - 3. कार्य
  - 4. बहता

Q.14 निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है?  
'अनेकों लोगों ने मुझे पकड़ लिया।'

- Ans
- 1. लिया।
  - 2. अनेकों
  - 3. मुझे पकड़
  - 4. लोगों ने

Q.15 रेखांकित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है?  
जिसका ज्ञान इंद्रियों से परे हो, ऐसी अनुभूति को शब्दों में व्यक्त करना बहुत कठिन होता है।

- Ans
- 1. शाश्वत
  - 2. अगोचर
  - 3. सुषुप्ता
  - 4. ज्ञानदा

### Comprehension:

प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

तितली और गौरैया प्रकृति के जीवंत रंगों के प्रतीक हैं। तितली का जीवनचक्र प्रकृति का चमत्कार है: अंडे से कैटरपिलर बनती है, जो पत्तियों चबाकर बढ़ती है। फिर कोकून में पुपा अवस्था, जहाँ जादुई परिवर्तन होता है। बाहर निकलते ही रंग-बिरंगे पंख फैलाती यह फूलों से अमृत चूसती है, परागण प्रक्रिया में सहायक बनती है। उद्यानों और जंगलों में इसकी उड़ान सौंदर्य बिखेरती है।

दूसरी ओर, गौरैया छोटी, चुस्त चिड़िया है। घरों के छतों पर घोंसला बनाकर अंडे देती है। चहचहाती हुई दाना चुगती है, कीड़े पकड़कर संतुलित पारिस्थितिकी बनाए रखती है। बच्चों को दाना खिलाती माँ गौरैया का दृश्य हृदयस्पर्शी है। तितली नाजुक होती है, हवा के झोंके में उड़ती है, वर्षा में पत्तियों पर छिप जाती है। गौरैया चंचल है, झुंड में उड़ान भरती है। दुर्भाग्य से, आधुनिक शहरीकरण ने दोनों को संकट में डाला—तितली को रासायनिक कीटनाशक, गौरैया को वायु प्रदूषण, प्लास्टिक और ऊँची इमारतों ने लुप्त होने की कगार पर ला दिया। निष्कर्षतः, तितली और गौरैया की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, तभी प्रकृति का संतुलन और सौंदर्य बरकरार रहेगा।

### SubQuestion No : 16

Q.16 निम्नलिखित में से गद्यांश का शीर्षक क्या है?

## Comprehension:

प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

तितली और गौरैया प्रकृति के जीवंत रंगों के प्रतीक हैं। तितली का जीवनचक्र प्रकृति का चमत्कार है: अंडे से कैटरपिलर बनती है, जो पत्तियों चबाकर बढ़ती है। फिर कोकून में पुपा अवस्था, जहाँ जादुई परिवर्तन होता है। बाहर निकलते ही रंग-बिरंगे पंख फैलाती यह फूलों से अमृत चूसती है, परागण प्रक्रिया में सहायक बनती है। उद्यानों और जंगलों में इसकी उड़ान सौंदर्य बिखेरती है।

दूसरी ओर, गौरैया छोटी, चुस्त चिड़िया है। घरों के छतों पर घोंसला बनाकर अंडे देती है। चहचहाती हुई दाना चुगती है, कीड़े पकड़कर संतुलित पारिस्थितिकी बनाए रखती है। बच्चों को दाना खिलाती माँ गौरैया का दृश्य हृदयस्पर्शी है। तितली नाजुक होती है, हवा के झोंके में उड़ती है, वर्षा में पत्तियों पर छिप जाती है। गौरैया चंचल है, झुंड में उड़ान भरती है। दुर्भाग्य से, आधुनिक शहरीकरण ने दोनों को संकट में डाला—तितली को रासायनिक कीटनाशक, गौरैया को वायु प्रदूषण, प्लास्टिक और ऊँची इमारतों ने लुप्त होने की कगार पर ला दिया। निष्कर्षतः, तितली और गौरैया की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, तभी प्रकृति का संतुलन और सौंदर्य बरकरार रहेगा।

### SubQuestion No : 17

Q.17 गद्यांश के अनुसार, कैटरपिलर क्या खाकर बढ़ती है?

#### Comprehension:

प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

तितली और गौरैया प्रकृति के जीवंत रंगों के प्रतीक हैं। तितली का जीवनचक्र प्रकृति का चमत्कार है: अंडे से कैटरपिलर बनती है, जो पत्तियों चबाकर बढ़ती है। फिर कोकून में पुपा अवस्था, जहाँ जादुई परिवर्तन होता है। बाहर निकलते ही रंग-बिरंगे पंख फैलाती यह फूलों से अमृत चूसती है, परागण प्रक्रिया में सहायक बनती है। उद्यानों और जंगलों में इसकी उड़ान सौंदर्य बिखेरती है।

दूसरी ओर, गौरैया छोटी, चुस्त चिड़िया है। घरों के छतों पर घोंसला बनाकर अंडे देती है। चहचहाती हुई दाना चुगती है, कीड़े पकड़कर संतुलित पारिस्थितिकी बनाए रखती है। बच्चों को दाना खिलाती माँ गौरैया का दृश्य हृदयस्पर्शी है। तितली नाजुक होती है, हवा के झोंके में उड़ती है, वर्षा में पत्तियों पर छिप जाती है। गौरैया चंचल है, झुंड में उड़ान भरती है। दुर्भाग्य से, आधुनिक शहरीकरण ने दोनों को संकट में डाला—तितली को रासायनिक कीटनाशक, गौरैया को वायु प्रदूषण, प्लास्टिक और ऊँची इमारतों ने लुप्त होने की कगार पर ला दिया। निष्कर्षतः, तितली और गौरैया की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, तभी प्रकृति का संतुलन और सौंदर्य बरकरार रहेगा।

### SubQuestion No : 18

Q.18 तितली को किससे विशेष खतरा बताया गया है?

#### Comprehension:

प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

तितली और गौरैया प्रकृति के जीवंत रंगों के प्रतीक हैं। तितली का जीवनचक्र प्रकृति का चमत्कार है: अंडे से कैटरपिलर बनती है, जो पत्तियों चबाकर बढ़ती है। फिर कोकून में पुपा अवस्था, जहाँ जादुई परिवर्तन होता है। बाहर निकलते ही रंग-बिरंगे पंख फैलाती यह फूलों से अमृत चूसती है, परागण प्रक्रिया में सहायक बनती है। उद्यानों और जंगलों में इसकी उड़ान सौंदर्य बिखेरती है।

दूसरी ओर, गौरैया छोटी, चुस्त चिड़िया है। घरों के छतों पर घोंसला बनाकर अंडे देती है। चहचहाती हुई दाना चुगती है, कीड़े पकड़कर संतुलित पारिस्थितिकी बनाए रखती है। बच्चों को दाना खिलाती माँ गौरैया का दृश्य हृदयस्पर्शी है। तितली नाजुक होती है, हवा के झोंके में उड़ती है, वर्षा में पत्तियों पर छिप जाती है। गौरैया चंचल है, झुंड में उड़ान भरती है। दुर्भाग्य से, आधुनिक शहरीकरण ने दोनों को संकट में डाला—तितली को रासायनिक कीटनाशक, गौरैया को वायु प्रदूषण, प्लास्टिक और ऊँची इमारतों ने लुप्त होने की कगार पर ला दिया। निष्कर्षतः, तितली और गौरैया की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, तभी प्रकृति का संतुलन और सौंदर्य बरकरार रहेगा।

### SubQuestion No : 19

Q.19 गद्यांश में प्रयुक्त 'जीवंत' शब्द का विलोम शब्द कौन सा है?

#### Comprehension:

प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

तितली और गौरैया प्रकृति के जीवंत रंगों के प्रतीक हैं। तितली का जीवनचक्र प्रकृति का चमत्कार है: अंडे से कैटरपिलर बनती है, जो पत्तियों चबाकर बढ़ती है। फिर कोकून में पुपा अवस्था, जहाँ जादुई परिवर्तन होता है। बाहर निकलते ही रंग-बिरंगे पंख फैलाती यह फूलों से अमृत चूसती है, परागण प्रक्रिया में सहायक बनती है। उद्यानों और जंगलों में इसकी उड़ान सौंदर्य बिखेरती है।

दूसरी ओर, गौरैया छोटी, चुस्त चिड़िया है। घरों के छतों पर घोंसला बनाकर अंडे देती है। चहचहाती हुई दाना चुगती है, कीड़े पकड़कर संतुलित पारिस्थितिकी बनाए रखती है। बच्चों को दाना खिलाती माँ गौरैया का दृश्य हृदयस्पर्शी है। तितली नाजुक होती है, हवा के झोंके में उड़ती है, वर्षा में पत्तियों पर छिप जाती है। गौरैया चंचल है, झुंड में उड़ान भरती है। दुर्भाग्य से, आधुनिक शहरीकरण ने दोनों को संकट में डाला—तितली को रासायनिक कीटनाशक, गौरैया को वायु प्रदूषण, प्लास्टिक और ऊँची इमारतों ने लुप्त होने की कगार पर ला दिया। निष्कर्षतः, तितली और गौरैया की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, तभी प्रकृति का संतुलन और सौंदर्य बरकरार रहेगा।

### SubQuestion No : 20

Q.20 गद्यांश के निष्कर्ष में प्रयुक्त 'कर्तव्य' शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है?

## Section : Test of Hindi Language and Comprehension 1

Q.1 नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन-सा शब्द तद्भव है?

- Ans
- ✓ 1. मीठा
  - ✗ 2. त्वरित
  - ✗ 3. घृणा
  - ✗ 4. ओष्ठ

Q.2 दिये गये वाक्य के किस भाग में त्रुटि है?

पर्यावरण संरक्षण कानून के अनुसार संरक्षित वन्य जीवों का शिकार करना और उनका व्यापार करना नीषिद्ध है।

- Ans
- 1. शिकार करना और उनका व्यापार करना
  - 2. संरक्षित वन्य जीवों का
  - 3. नीषिद्ध है।
  - 4. पर्यावरण संरक्षण कानून के अनुसार

Q.3 लोहे के चने चबाना- मुहावरे का सही अर्थ क्या है?

- Ans
- 1. बुरी तरह पराजित करना
  - 2. नियम विरुद्ध काम करना
  - 3. काफी कठिन काम करना
  - 4. क्रोध भड़काना

Q.4 'समुद्र' का पर्यायवाची शब्द है-

- Ans
- 1. जलज
  - 2. तड़ग
  - 3. रत्नाकर
  - 4. सरोवर

Q.5 नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन-सा शब्द तद्भव नहीं है?

- Ans
- 1. पीपल
  - 2. निमंत्रण
  - 3. कंधी
  - 4. अकेला

Q.6 'अंधा होना' मुहावरे का उचित अर्थ है-

- Ans
- 1. दिखाई न देना
  - 2. कुछ न सूझना
  - 3. विवेकभ्रष्ट होना
  - 4. सीधा साधा

Q.7 अनेकार्थी शब्द 'धानी' का एक अर्थ नहीं है-

- Ans
- 1. पृथ्वी
  - 2. उपमाता
  - 3. विद्युत
  - 4. आँवला

Q.8 नीचे दिए गए वाक्यों में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए।

- Ans
- 1. यह एक सन्यासिनी का आश्रम है।
  - 2. यह एक संन्यासिनी का आश्रम है।
  - 3. यह एक संन्यसिनी का आश्रम है।
  - 4. यह एक संन्यासिनी का आश्रम है।

Q.9 निम्नलिखित विकल्पों में 'खण्ड' का अनेकार्थी शब्द है -

- Ans
- 1. दीशा
  - 2. रिक्त
  - 3. भाग
  - 4. प्रखर

Q.10 "अपने मुँह मियाँ मिट्टू होना" मुहावरे का क्या अर्थ है?

- Ans
- 1. अपने मुँह अपनी ही बड़ाई करना
  - 2. दूसरों की सदैव निंदा करना
  - 3. अयोग्य होना
  - 4. सबके साथ सदाचार का व्यवहार करना

Q.11 वाक्य के त्रुटिपूर्ण रेखांकित अंश के लिए निम्नांकित विकल्पों में से उपयुक्त शब्द का चयन करके वाक्य को शुद्ध करें-

इसके लिए एक प्रामाणिक कथा प्रचलित है।

- Ans
- 1. प्रामाणिक
  - 2. प्रामाणीक
  - 3. प्रमाणिक
  - 4. प्रमाणीक

Q.12 सही विलोम युग्म चुनें-

- Ans
- 1. आहार्य - आहूत
  - 2. उत्कर्ष - उत्कृष्ट
  - 3. उत्तरायण - उत्तीर्ण
  - 4. उग्र - सौम्य

Q.13 निन्दा का विलोमार्थ शब्द है।

- Ans
- 1. मौज
  - 2. स्तुति
  - 3. आलोचना
  - 4. बुराई

Q.14 नीचे दिए गए वाक्यों में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए।

- Ans
- 1. सभी विद्यालय खुल गए।
  - 2. बड़ी बिकट समस्या है।
  - 3. कुछ काम-धंदा करो।
  - 4. झूट बोलना पाप है।

Q.15 'निराकार' का विलोम शब्द है -

- Ans
- 1. आकार
  - 2. साकार
  - 3. स्वायत
  - 4. आधार

### Comprehension:

निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखें -

मानव जीवन में कुछ महान कर पाने की अदम्य लालसा ही महत्वाकांक्षा है। इस लालसा की पूर्ति का मार्ग परस्पर होड़ से जन्म लेता है। किसी अन्य से आगे बढ़ पाने की आकांक्षा बिना 'अन्य' के प्रति कठोर हुए नहीं पूर्ण की जा सकती। मनुष्य में आगे बढ़ने की जो भी स्वाभाविक इच्छा जन्म लेती है, उसके साथ अप्रत्यक्ष रूप से अन्य मानवों को पीछे छोड़ने की अदृश्य इच्छा भी जुड़ी रहती है। यदि सहृदय होकर इस पर विचार किया जाए तो इस प्रकार की समस्त प्रतिद्वंद्विता निष्ठुरता है, दूसरे के प्रति निर्ममता है, किंतु महानता को पाने के लिए यह निर्ममता या निष्ठुरता एक अनिवार्य दुर्गुण है। महत्वाकांक्षा वह प्रेरणा शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। जीवन में महत्वाकांक्षी होना आवश्यक है ताकि हमारे जीने के पीछे एक मकसद हो। बिना उद्देश्य के जीवन निरर्थक है। जीवन में कुछ करने या बनने का उद्देश्य हमें उसी को पूरा करने के लिए सकारात्मकता और साहस के साथ आगे बढ़ाता है। महत्वाकांक्षा वह प्रेरक शक्ति है जो मनुष्य को गतिशील एवं प्राणवान बनाती है और कर्म करते रहने की प्रेरणा देती है।

### SubQuestion No : 16

Q.16 मनुष्य में महत्वाकांक्षा निम्न में से किस कारण से नहीं जन्मती है?

